



*ट्रैफिक जाम एक भयंकर समस्या ।
समाधान हमारे और आपके पास !!*

JOIN: PROTHSAHAN TEAM (REGD.)- Traffic Awareness Club
www.prothsahanteam.org

रेड लाईट जोन में घुसने से पहले तय करें कि
आपको किस लेन में रहना है ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org



रेड लाईट के चारों तरफ 200 मीटर तक नो
लेन चेंजिंग जोन है।

JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

रेड लाईट पर गाड़ी को सही जगह खड़ी करें ।
आड़ी-तिरछी ना करें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

रेड लाईट पर खड़े होकर ना सोचें कि आपको कहाँ मुड़ना है, तथा लेन नियम के पालन करें।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

अपनी लेन को पहचाने और बार-बार लेन ना बदलें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

अपने दायीं ओर 1 फिट से कम कि जगह छोड़ें-ताकि
ज्यादा लेन बन सकें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

छोटे मोड़ पर पहुँचनें से पहले ही लेन संख्या कम करें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

Write us : www.prothsahanteam.org

लाल बत्ती हरी होने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर लें
ताकि ज्यादा गाड़ीयाँ निकल सकें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

केवल अपनी सोच कर सबके लिए मुसीबत ना खड़ी करें,
दूसरों की भी सोचें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

15 मिनट घर से जल्दी चलें, ताकि रैश ड्राइविंग से बचें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

देर से चल कर जल्दी पहुँचनें की कोशिश ना करें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

बोतल नैक प्वाइंट मतलब ट्रैफिक जाम, धक्का-मुक्की,
समय, और पेट्रौल की बरबादीं ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

ट्रैफिक जाम में खड़े होने से अच्छा है,
कि नियमित स्पीड पर चलें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

दायीं तरफ चल रहे धीमीं गति के वाहन दूसरों को बायीं तरफ से ओवरटेक करने को मजबूर ना करें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

अनजान जगह पर होने का मतलब ये नहीं कि औरों के लिए
मुसीबत बनें । बीच सड़क में खड़े होकर रास्ता ना पूछें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

सीधी लाईन में खड़े होने का मतलब अपने बच्चों से सीखें।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

लेन मे चलने का मतलब अपने से तीसरी गाड़ी ना दिखाई दें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

आड़ी-तिरछी गाड़ीयाँ ना खड़ी करे इससे
सभी का समय खराब होता है ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

सड़क पर कम से कम जगह घेरें ताकि
ज्यादा गाड़ीयाँ सीधी लेन में चल सकें।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

गाड़ीयों के बीच नियमित दूरी रखें और छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से बचें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

जल्दबाजी के दोस्त महान --टेंशन --दुर्घटना --सबका नुकसान ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

सबसे देर से आकर -गलत लेन में आगे पहुँचने
कि कोशिश ना करें ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org

एक आदमी की लापरवाही की वजह से औरों का भी
नुकसान हो सकता है ।



JOIN : PROTHSAHAN TEAM (REGD.)

www.prothsahanteam.org